

## ISGEC HEAVY ENGINEERING LTD.

A-4, Sector-24, Noida - 201 301 (U.P.) India (GST No.: 09AAACT5540K2Z4)

Tel.: +91-120-4085000 / 01 / 02

E-mail: corpcomm@isgec.com

Fax: +91-120-2412250 www.isgec.com

Date: July 29, 2023 HO-425-S

To, BSE Ltd. Registered Office: Floor 25, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Company Scrip Code: 533033 To,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051

Company Symbol: ISGEC

Dear Sir(s)/Madam(s),

Furnishing of Information in terms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Subject: Newspapers Publication regarding the 90th Annual General Meeting, e-voting information, cut-off date and Book Closure

1. In furtherance to our letter dated July 28, 2023 regarding Notice of 90th Annual General Meeting, evoting information, Annual Report 2022-23, Cut-off date and Book Closure, please find enclosed herewith copy of Newspapers advertisement, as per details given hereunder:

S. No.	Name of Newspaper	Language/Version	Date of Publication		
1	Business Line	English daily Newspaper	July 29, 2023		
2	Hari Bhoomi	Hindi daily newspaper	July 29, 2023		

- 2. This intimation is being published on the website of the Company at www.isgec.com under "Announcements/Exchange Filings" section under "Newspaper Advertisements" tab.
- 3. The above is for your information and records, please.

Thanking you,

Yours truly,

For Isgec Heavy Engineering Limited

CS Sachin Saluja **Company Secretary & Compliance Officer** Membership No. A24269 Address: A-4, Sector-24 Noida-201301, Uttar Pradesh

Encl.: As above

g Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No. A24269

Address: A-4, Sector-24/

Noida-201301, Uttar Pradesh

## 'India achieved its non-fossil fuel targets nine years in advance'

STELLAR SHOW. PM highlights India's bio-conservation efforts too

India has achieved its non-fossil, installed electric capa-city target 9 years in advance of the 2030 deadline that it had set for itself, Prime Minis-ter Narendra Modisaid on Fri-day. The country has set the bar even higher through up-dated targets, he added. Today, India is one of the top 5 countries in the world in terms of installed renewable energy capacity, he said in his virtual address at the G20 En-vironment and Climate Sus-tainability Minister's Meeting here. "We have also set a tar-get of attaining net zero by 2070," he added. India continues to collabor-

2070,"he added.
India continues to collaborate with partners through alliances, including the International Solar Alliance, CDRI, and the Leadership Group for Industry Transition, he added.
On biodiversity conservation, the prime minister highlighted India's consistent efforts in restoring and property of the control of

lighted India's consistent er-forts in restoring and enriching priority landscapes affected by forest fires and mining. This has been recog-nised through the 'Gandhinagar Implementation Roadmap and Platform', he told the G20 gathering.

#### PROTECTING OCEANS

"Our oceans support the live-lihoods of over three billion Inhoods of over three billion people across the globe. They are a crucial economic resource, especially for the small island States, whom I prefer to call large ocean countries. They are also home to extensive biodiversity. Therefore, responsible use



Ministers Meeting, in Chennai, oand management of ocean re-sources is of vital import-ince, ""look forward to the adop-tion of G20 high-level prin-ciples for a sustainable and re-silient blue and ocean-based economy. I also call on the G20 to work constructively for an effective international legally-binding instrument to endplastic pollution," he said. "Protecting and caring for Mother Earth is our funda-mental responsibility. Today, it has taken the shape of cli-mate action because this dury was ignored by many for avery

mate action because this duty was ignored by many for a very long time. Based on India's traditional knowledge, cli-mate action must follow Anty-odaya. We must ensure the rise and development of the last person in the society," he said.

#### INDIA'S INITIATIVES

India recently launched the International Big Cat Alliance for conservation of seven big cats of the planet. It is based on learnings from Project Ti-ger, a pioneering conservation initiative. As a result of Project

Tiger, 70 per cent of the world's tigers today are found in India. India is also working on Project Lion and Project Dolphin, Modi said. Mission Amrit Sarovar is

Mission Amrit Sarovar is another unique water conservation initiative. Under this mission, more than 63,000 water bodies have been developed in just about one year. The 'Catch the Rain' campaign has also shown excellent results. To conserve water, more than 2,80,000 water harvesting structures were constructed through the campaign. In addition, nearly 2,50,000 re-use and recharge structures have also been constructed.

#### G20 meet on climate sustainability reaches consensus on most issues

JOINT EFFORT. Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav with US Special Presidential Envoy Climate John Kerry at the G20 meet in Chennai on Friday PTI

submitted to the leaders for their consideration to be annexed to the G20 New Delhi Leader's Declaration

The Ministers also adop-

The Ministers also adopted the outcome document and the Chair's summary, he said.

On climate finance, the minister said India's stand is clear that developing countries need a climate finance and technology transfer coming on the same level field. Developed countries have already

countries have already planned to provide \$100 bil-lion, and there was discus-

sion in the earlier climate finance and COP also.

Our Bureau

At the conclusion of the G20 Environment and Climate Sustainability Ministers' meeting, a consensus was reached on 64 paragraphs out of the 68 that were taken up for discussion in the agenda, said Union Minister for Environment Bhupender Yadav. To a question on the four

omment Bhupender Yadav. To a question on the four paras where there was no consensus, the minister said, "There were some issues about energy in the four paras. Otherwise, everything is in the consensus. The major achievement of this G20 was that environment, land degradation, blue economy and forests need to be covered and there was common consensus in all these issues. In 95 per cent, there was a consensus."

#### LANDMARK MOVE

LANDMARK MOVE
Yadav said the meet concluded with G20 ministers
standing united in their
commitment to create a
sustainable and resilient future.

In a landmark move, the

G20 Members adopted the outcome document on G20 Members adopted the outcome document on 'Chennai high level principles on sustainable and re-silient blue/ocean-based economy," he said.

The document will be

#### Over 5 cr ITRs filed for FY23 so far

Press Trust of India

Over 5 crore tax returns have been filed for income earned in the 2022-23 fiscal, which ended March 31.
"Out of the 5.03 crore ITRs filed till July 27, about 4.46 crore ITRs hed whee been everified ie. more than 88 per cent ITRs filed have been exertified!" The income tax devertified it. verified!" the income tax de-partment tweeted.

### SBI Card Q1 net down 5.42 per cent at ₹593 crore


SBI Cards and Payment Services (SBI Card), the country's largest pure play credit card issuer, on Friday reported a 5.4 per cent decline in net profit for the first quarter ended June 30, 2023 at ₹593 crore (₹627 crore). The bottomline was marginally lower than net

profit of ₹597 crore recorded in the March 2023 quarter. For the quarter under re-view, SBI Card recorded a total

view, SBI Card recorded a total income of ₹4,046 crore, up 24 per cent over total income of ₹3,263 crore in the same quarter last year, the company's filing with stock exchanges showed.

In the March 2023 quarter, SBI Card had recorded total

SBI Card had recorded total income of ₹3,917 crore.



For and on behalf of the Board of Directors of GMR Hyderabad International Airport Limited

#### businessline. **Classifieds** REAL ESTATE

GENERAL MOHALI CITI Centre – New Con cial Project on Airport F Chandigarh. Investment from Lacs Onwards. Call 9888115050



 For the supply of various laboratory equipments for various Dairies under MRCMPU Ltd. (Tender ID:2022\_KCMMF\_590941\_1)
 Last Date of submission: 16.08.2023 For more details, visit www.malabarmilma.com, www.etenders.kerala.gov.in

# ayakumarp@factitd.com /mat-contracts2@factitd.com, Website: www.fa

FACT दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED

ewspapers.
Renovation of BI Flat Quarters- Phase II in FACT Udyagamendal Township, ender No. 93009/2023-2024/E72994, e-tender ID. 2023 FACT 7-64085, 1 Construction of the PA Pump House und milke Building a FACT 7-64085 in onder No. 9404/9023-2024/E72995, e-tender ID. 2023 FACT 7-64162, 1 acst data & time for submission of bids; 18.08.2023 at 11.00 hrs. Infall version of the above is published in FACT website, https://foct.com/sci.

#### ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED

Company has engaged the services of National Scranifies Depository, Limited Services of Variabilities (very limited produced the Company and Decompany and Decom

indigitation common and immonification common the common and immonification commonification commonific



U	Unaudited (Reviewed) Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2023									
		STANDALONE				CONSOLIDATED				
SI. No.	Particulars Particulars	Quarter Ended 30.06.2023 (Reviewed)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2022 (Reviewed)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Reviewed)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2022 (Reviewed)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)	
1.	Total Income from Operations (net)	585695	594694	379659	2015898	585695	594694	379659	2015898	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	34666	90651	19310	290511	34666	90651	19310	290511	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	34666	90651	19310	290511	34666	90651	19310	290511	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	22348	58124	12361	186234	22493	55745	11749	182628	
5	Total Comprehensive income for the period (comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6	Paid Up Equity Share Capital	1195596	1195596	1195596	1195596	1195596	1195596	1195596	1195596	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	1100525	1100525	890535	1100525	1084444	1084444	877447	1084444	
8	Securities Premium Account	362571	362571	362571	362571	362571	362571	362571	362571	
9	Net Worth	1436596	1401505	1125085	1401505	1420661	1385424	1111998	1385424	
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	0.09	0.07	0.20	0.07	0.09	0.07	0.20	0.07	
11	Debt Equity Ratio	0.86	0.80	0,53	0.80	0.87	0.80	0.54	0.80	
12	Earning Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)-									
	1. Basic:	0,19	0.49	0,10	1,56	0.19	0.47	0,10	1,53	
	2. Diluted :	0,19	0.49	0.10	1,56	0.19	0.47	0,10	1,53	
13	Capital Redemption Reserve	_	-	-	-	_	-	-	-	
14	Debenture Redemption Reserve	_	_	-	-	-	-	_	-	

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites, (SSE www.besinduc.com a NSE www.resinduc.com) and Bank's website (www.ucobank.com) 2, Information relating to total Comprehensive Income and other Comprehensive Income and O















# राजस्थान ही झेलेगा 'काले पानी' का दंश, हरियाणा युद्ध स्तर पर बना रहा रैंप

शास्त्रदेश के लोगों के म्लाम्थ्य पर खतरा बन चुका राजस्थान का पानी अब ज्यादा समय तक सिरदर्द साबित नहीं होगा। प्रशासन की ओर से राजस्थान सीमा पर बनाए जा रहे रैंप का निर्माणकार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिससे वहां से छोड़ा जाने वा्ला दूषित पानी अब वहीं के लोगों को दर्द देना शुरू कर देगा। सीएम् मनोहरलाल का शनिवार को कस्बे में जनसंवाद कार्यक्रम है। राजस्थान सीएम के आगमन पर एक बार फिर दूषित पानी छोड़ सकता है। लंबे समय से 'काला पानी' की

सजा भगत रहे कस्बे के लोगों को तीन फुट ऊंचा रैंप बनने के बाद काफी हद तक राहत मिलेगी। रैंप का निर्माणकार्य शरू होते ही वीरवार को



रेवाड़ी | रेंप बनाने का कार्य करती जेसीबी और दूषित पानी को टैंकर में भरते कर्मचारी |

NOT THE

To Livery

राजस्थान की ओर से भारी मात्रा में पाए। बरसात के मौसम में रैंप बनने के बाद कस्बे के लोगों को इससे बड़ी राहत मिलने के पूरे आसार हैं। रैंप निर्माण के बाद पानी निकासी के शुक्रवार को कार्य ने और तेजी पकड़ ली। प्रशासन का प्रयास है कि जल्द सड़क पर रैंप बनकर तैयार हो, ताकि लिए बने नालों पर भी नियंत्रण करने की तैयारी है, ताकि इनसे एक क्षमत

#### फोटो : हरिभूमि बिडा ऑफिस को 'भारत

रैंप बनने के बाद राजस्थान की ओर छोड़ा जाने वाली पानी सबसे हले भिवाड़ी इंडस्ट्रियल परुल । भवाड़ा इडसट्रयल डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यालयों

दर्शन' कराएगा पानी

के साथ राजस्थान के कई और कार्यालय भी हैं, जिन्हें दिषत पानी असली 'भारत दर्शन' कराएगा। रैंप से टकराने के बाद पानी बॉर्डर पर बनी भिवाड़ी की कई सोसायटी में लोगों को उसी तरह परेशान करेगा,

#### जिस तरह कस्बे के सेक्टरों के लोग परेशान होते रहे हैं। आज फिर छोड़ा जा सकता है दूषित पानी

जारी किया है। शनिवार को ही सीएम मनोहर लाल का धारूहेड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम फिक्स है। अगर तेज बरसात होती है. तो राजस्थान की ओर से एक बार फिर पानी छोड़ा जा सकता है। सीएम भी समाधान के लिए बडी घोषणा कर सकते हैं।

#### दुषित पानी निकालने में जुटा सरकारी तंत्र

स्थिएम के आजमन को लेकर रुखे में करीब एक मार से एकएव के आसपास एकप्रित बूचित पानी को क्रिकालने के लिए प्रशासनिक अमले में पूरी ताकत ह्योंक बी है। ट्रैक्टरों पर लगे सेंटिक टैकों की महब्द से पानी को बाहर डालने टैकों की महब्द से पानी को बाहर डालने दैकों को मदद से पानी को बाहर सातन का कार्य भी काफी तेजी से किया जा रहा है, ताकि सीएम को करी भी दूषित पानी नजर नहीं आए। बस स्टैंड को जमीन पर मारी मात्रा में पानी एकतित था, जिसे शुक्रवार शाम तक काफी कम कर दिया गया।

#### सीएम आममन ने जमाए लोगों के सोए भाग्य

कार्यक्रम के लिए जाहां से सीएम को गुजरना है, वहां की बबहाल सड़कों को चकावक किया है। कार्यों के दौरान धन की कमी आड़े नहीं आ रही। जंगल बैबलर पर्यटन केंद्र के दिन भी बदलते नजर आने लगे हैं।

#### MUNICIPAL COMMITTEE, KALANAUF

सार्वजनिक सुचना

मार्थ किन्या के लिए में कि प्रतिक्रिया मित्रिया में कि प्रतिक्रिया मित्रिया मित्रिया में कि प्रतिक्रिया मित्रिया मित्रिया में कि प्रतिक्रिया मित्रिया मित्रिय मित्रिया मित्रिया मित्रिया मित्रिया मित्रिया मित्रिया मित्रिया

Sr.	Descripation	Start Date &	End date &			
NO		Time	Time			
1	Submission of	28.07.2023 at	03.08.2023 till			
	EMD Amount	4:00 PM	5:00 PM			
2	E-Auction Live	04.08.2023 at	04.08.2023 at			
	(Online)	9:00 AM	5:00 PM			

विज्ञापन हेतु नीलाभी दिनांक हरियाण सरकार द्वारा बनाए गए https://ulb.project/247.in/ आनवादी गर्छन के माण्यम से ही आवीनत की नाएगे, जो भाजिक विज्ञापन हेतु यूनियोल एपं होस्टर की नीलाभी में भाग लेने का उपहुक हो, वह निक्कत त्रिविध सम्मय एर आनलाईन पोर्टल के माण्यम से मीक वह लाभ उठाए।

#### खबर संक्षेप 💌

#### अजीत ने विश्व स्तर पर जीते गोल्ड व सिल्वर

**बाढ्डा**। एथलेटिक्स खिलाड़ी अजीत सांगवान ने अंतरराष्ट्रीय



उनकी खेल उपलब्धि से खे्लप्रेमियों में खुशी का माहौल है और उन्होंने खिलाडी को जीत की बधाई दी है। 21 से 25 जुलाई तक नेपाल के पोखरा में इंडो-नेपाल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नेपाल, ्र श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भाग लिया।

#### पिता-पुत्र व पति-पत्नी हेरोइन सहित गिरफ्तार



सिरसा। पुलिस ने रानियां क्षेत्र से बाइक सवार पिता-पुत्र तथा पति-पत्नि सहित चार लोगों को करीब पांच लाख रुपए की 50 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े प्रीतपाल उर्फ राजू, दीपक, अनिल कुमार व पूजा रानी पत्नी अनिल कुमार उर्फ बिट्टू निवासियान गली वार्ड नं 6 रानियों के रूप में हुई हैं।

# पाकिस्तानी नस्ल के कुत्ते

दंदर में महिला को काटने की घटना के बाद सीएम फ्लाइंग ने मारे छापे

पानी छोड़ा गया था, ताकि रैंप निर्माण का कार्य बाधित हो जाए।

दिषत पानी इलाकों तक नहीं पहुंच

हरिभूमि न्यूज 🕪 हिसार

नजदीकी गांव ढंढ्र में महिला को पिटबुल नस्ल के कुत्ते के काटने के मामले में सीएम फ्लाइंग ने सख्ज रवैया अपनाया है। सीएम फ्लाइंग ने शुक्रवार को सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, सब इंस्पेक्टर रणधीर, सब इंस्पेक्टर बजरंग, ड्यूटी मजिस्ट्रेट एआर संदीप खटकड़ के साथ 12 क्वार्टर रोड सहित कई स्थानों पर छापे मार

कर ऐसे कुत्तों की जानकारी जुटाई। शहर के 12 क्वार्टर क्षेत्र में टीम ने घर की जांच की तो वहां पमेरियन कत्ती मिली। दसरे घर में जांच की तो वहां पर दो पाकिस्तानी बुली कुत्ते मिले। यह मकान फूड सप्लाई इंस्पेक्टर ने किराए पर दिया हुआ था। पड़ोसियों ने टीम को बताया कि यह एक पाकिस्तानी बुली कुत्ता उसी फूड इंस्पेक्टर का है और वह खरीद बंच का काम भी करता है। हालांकि किरायेदार का कहना है कि इसमें से एक कत्ता उनका और दसरा मकान मालिक के रिश्तेदार का है। टीम ने फूड इंस्पेक्टर और पड़ोसियों से जानकारी जुटाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। सीएम फ्लाइंग संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट बनाकर भेजेगी।



बलबीर कौर नाम की महिला को एक कत्ते द्वारा काट लेने का माना जा

### हा है। महिला खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में अपना राशनकार्ड दुरुस्त करवाने गई थी। यहां कुत्ते ने उसे पकड़ लिया।

पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगवाने के नाम पर रुडपे 20 लाख रूपये

जींद्र। संजीती थाना पुलिस ने हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर लागानों के नाम पर 20 लाग रूपरे की राशि रहेनों पर बाइइरनार के संपत्ति के जिसका नामाना दर्ज किया है। पुलिस मामले की किया कर रही है। नाम अपना दर्ज किया है। पुलिस मामले की किया कर रही है। नाम उत्ति का पुलिस को की नाम उत्ति है। पुलिस माम की प्रति को की नाम उत्ति माम पुलिस को की का का पुलिस को की कियाराम में माम किया करा किया की कियारा में माम जिसका की का का पुलिस को की साम उत्ति है। इस का उत्ति माम की कियारा में स्थान की कियारा में स्थान की कियारा में स्थान की कियारा में प्रति हो। इस कारण अंधि की कियारा में स्थान की कियारा पर रहती है। इस कारण अंधि की कियारा में स्थान की कियारा पर रहती है। इस कारण अंधि की कियारा में स्थान की कियारा पर रहती है। इस कारण अंधि की कियारा में स्थान की कियारा पर रहती है। इस कारण अंधि की कियारा उनके साथ जान-पहचान थी। ढोनों ने अपनी राजनीतिक पैठ का ह्वाला ढेते हुए उसे सरकारी नौकरी पर लगवाने की बात कही। जिसकी एवज में उसने रुपयों की मांग की। उसने दोनों पर विश्वास कर उसकी ननंद पानीपत के गांव कुटानी निवासी जसवंती से बात की और अपने रिश्तेबर सुनित को हरियाणा पुलिस में सुब इंस्पेक्टर लगवाने के लिए बात की 120 लाख रुपये में सौदा तय हुआ और उन्होंने सुमित को नौकरी पर लग नाम पर 20 लाख रुपये प्रेमचंद और उस्की परनी को दे दिए।

# फूड इंस्पेक्टर के घर मिले इलाज के दौरान 10 महीने के बच्चे की मौत, परिजनों का अस्पताल में हंगामा

लापरवाही

का स्वीह होणा नहीं छाठा और तबावत बस्त है तम पर उन्हें नह का की स्वीह की उन्हें के लिए में में महिन की है जह वह की अपनाता में मिर की है जह की अपनाता में मिर की किए की मिर की अपनाता में अपनाता में पहुंच कार और उन्होंने वहां पर होगा मां महा करना कुर कर दिवा और डॉक्टर पर लाया नहीं के आरोप लागाने शुरू कर दिवा भी स्वाह में मिर के स्वीह मी की प्रति हों में किए पहुंच कार और उन्होंने बाव अध्यक्ष जय सिंह पुलिस टीम के साथ मीके पर पहुंच कार और उन्होंने बाव के प्रति हों मिर की की मां मिर की की मां मिर की की मां मिर की मीका मिर की हों में स्वीह में की मिर की मिल मिर की किशोर का कहना है कि उन्होंने हुलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती। जब बच्चे को दाखिल करवाया गया था तो उसे सांस की दिक्कत थी, जिस पर बच्चे को भाप भी दी गई थी और उस दौरान बच्चे को 104 बुखार भी था।

# हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बेज नं. ६७७-७०, खेक्टर-२, पंचकुला-134151 कोन नं. ७१७2-2586501, वेबसाइट : <u>www.hssc.gov.in</u>

सार्वजनिक सचना

उम्मीदवारों की जानकारी हेतु है कि दिनांक 🌣 प परीक्षा) को कट ऑफ और उम्मीदवारों की

स्वातः प्रेयकुल्य इस्ताः/ सहिव दिनांकः 27 जुलाई, 2023 इंदियाणा कर्मवारी चवन आर्थ संवाद विज्ञा. सं.−1159/13/573/2024/19790/88/6 दि. 28.07.23 पंचकृ

कार्यालय नगर पालिक निगम, रिसाली (छ.ग.) रिसाली, दिनांक 26/07/2023 क्रमांक/लो.क.वि./2023/952

#### ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारो से कुल 06 कार्य हेत् ई-निविदा क. 142749, 142754, 142736, 142758, 142728 एवं 142717 ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

(नोट : ई टेण्डर में ऑफलाईन घरोहर राशि एवं शपय पत्र प्रस्तुत करन अनिवार्य होगा अन्यथा निविदाकार की निविदा अमान्य किया जावेगा तथा द को नहीं खोला जातेगा।

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विञ्जप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानक http://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है

कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, रिसार

#### इस्नेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : रादौर रोड, यमुनानगर-135001, हरियाणा Pa:01732-610617 661158

Email Id: ro

# ्र क्षात्र के विकित्य प्रश्ना ( "क्षात्रीवार") को बात प्रकार को स्वीत्र के विकार के विकार के विकार के विकार का विकार का व्यक्त के विकार का विकार

कृते इसकेस हैयी इंजीविक्शिक रिसीवेटी

स्थान : यनुनानगर, हरियाण दिनोक : 28 जुलाई 2023

₹ 24269

#### राशिफल



कार्यक्षेत्र में विद्ध हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी। कारोबार में किताइयों का सामना करना पड़ सकता है।

दुःख तकलीफों से हो

परेशॉन या चाहिए भविष्य की चिंता का समाधान Call Now: 99 99 99 05 22

For FREE Prediction Download astroscience app

रोज़गार, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, संतान व प्रत्येक समस्या का घर बैठे समाधान पार्ये




शैक्षिक एवं लेखनादि बौद्धिक कार्यों के सखद परिणाम मिलेंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। आय के साधन बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।



कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। यात्रा पर जा सकते हैं। अपनी भावनाओं को वश में रखें।




शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वद्धि होगी। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। धर्म-कर्म में व्यस्तता हो सकती है। कारोबार के प्रति सचेत रहें। धैर्यशीलता में कमी




होने से बचें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। लाभ के अवसर मिलेंगे। मानसिक तनाव हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आय में कमी एवं खर्चों की अधिकता रहेगी।



धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नकारात्मकता का प्रभाव हो सकता है।



जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं।



आय में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। खास में कमी रहेगी। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। मीठे खानपान में रुचि बढ़ सकती है।



किसी पैतक सम्पत्ति से धन प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। स्वभाव में चिडचिडापन हो सकता है।



रार अवस्य कोन की प्रभावान पाये द्वाद्वा आत्वम स्थान

नोट: अगर किमी का पति देशी या देटी किमी इसोर के का में हो तो एक बार अकर कीत करें

**9810873370**€ सूचना सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्पले/ वलासीफाईड) में दिए गए तच्यो/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय की श्रीर विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुदक, प्रकाशक या सम्पादक की

गपनों के तथ्यों से सम्बन्धि

वारी नहीं होगी।

हमसे पहले काम करने वाले को इनाम भटको चाहे जिधर काम होगा इधर



प्रेमविवाह, सौतन एवं दुश्मन से छ्टकारा, पति, पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा, रूठे को मनाना, कारोबार, तलाक में बाधा, संतान या विदेश यात्रा में रूकावट। अब तक कहीं से काम न बना हो तो एक बार फोन करें। घर बैठे

## माता चंदो देवी

सभी समस्याओं का समाधान।

9045375811

#### समाधान

 खदा ने चाहा तो किसी का प्यार टटने नहीं दुंगा। मिया पठान बंगाली 2 घंटों में घर बैठे समाधान लव मैरिज, मनचाह प्यार. पति-पत्नी अनबन. सौतन दश्मन छटकारा 7500542070

#### जॉब

में SMS जॉब करके लड़के-लड़कियां गृहणियां, घर बैठे कमाये (21,500-48500) . .... (८१,५७०-48500) महीना (मोबाइल+लैपटॉप मुफ्त) नौकरी हेत चग्ग नौकरी हेतु नाम पता QUALIFICATION/CALL /SMS/WHATSAPP करें:-7980991148

बाएँ से दाएँ

5.अस्पताल-4

पक्षाचात-3

.मिट्टी, धूल-2

.उथल-पुथल, कोलाहल

### CICICI BRAINS

### AND THE CICIC BRAINS

### AND THE CICC BRAINS

### AND THE CICIC BRAINS

### AND THE CIC BRAINS

### AND THE CI 060306003416 पार्थवर प्राप्तान कर प्रकार कर प्रकार कर प्रकार क्षेत्रपार जीवा मेच 360206001366 प्रशासन प्रवास प्रकार प्रकार क्षेत्रपार जीवा मेच 360206001366 प्रशासन प्रवास प्रकार प्रवास कर प्रवास प्रकार प्रवास प्रकार प्र

383205001185 Probe finds
probe

26.गुनाह,जुर्म-4

रहता है-2

28.रखवाली करना-4 29.मुर्गा-3

32.मूल, पेड़ का वह हिस्सा जो जमीन में

# शब्द पहेली - 5228

11.पुष्प, फूल, सुमन-3 12.बुरे कार्य करनेवाला-14.जाद्, तंत्र-मंत्र-2 15.सीत, सपत्नी-3 जानेवाला लंबा कपडा-2 19.नगर में रहनेवाले-5 22.गणपति, गणेश-5 25 बागवान-2 26.जुदा, पृथक्-3 27.जी. इच्छा-2 30.सिसकना-3 31. <del>रहस्य-</del>2 33.सोना,धत्रा-3 35.इंदयगति, स्पंदन-4 क्या-2 36.फिल्म 'मैंने प्यार किया' 23.अपवित्रता

में सलमान की मां का किरदार निभानेवाली 25.मानसिक सोच-5 ऊपर से नीचे २ ज्रहेश्य गंत्रका-3.राम-सीता के पुत्र-2,2 4.टालना-2.3 5.स्याही रखने का पात्र-3 6.क्षार-2

7.संदरी (उर्द-4) 13.होशियार-3

34.आमिर खान, टिवंकल खना की फिल्म-2 शब्द पहेली- 5227 का हल 

#### सूडोकु बवचाल- ५२३७ 8 9 6 q 6 5 7 1 4 4 2 1 2 9 8 6 6 4 5 8 9

अंक भरे वाने आवस्तात हैं.

अस्त्रेक असूती और सही पींच में एवं 3×3 के वाने किसी भी अंक की पुरशापूर्ण न हो हमका विशेष ध्यान हम्रे परार्ट में मीनूद अंकी को अप हार्टी नहीं स्वर्टी. अंवरं को आप